

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक
30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 902]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2019 — पौष 7, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13360/डी. 235/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-12-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त प्रारंभ.	नाम तथा	1.	(1)	यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 कहलाएगा.
			(2)	यह 1 अगस्त, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.
अनुसूची का संशोधन.		2.		छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, -
			(एक)	सरल क्रमांक 22 में, शब्द “बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” के स्थान पर, शब्द “बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” प्रतिस्थापित किया जाये;
			(दो)	सरल क्रमांक 23 में, शब्द “सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” के स्थान पर, शब्द “सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” प्रतिस्थापित किया जाये; और
			(तीन)	सरल क्रमांक 128 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
			“129	छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण.
			130.	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.”

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13360/डी. 235/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 of 2019)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-------|--|--------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall be deemed to have come in to force retrospectively with effect from 1st August, 2019. | |
| 2. | | In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the table of item 19 of the Schedule,- | Amendment of Schedule. |
| | (i) | in serial number 22, for the words “Bastar Evam Dakshin Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran”, the words “Bastar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran” shall be substituted; | |
| | (ii) | in serial number 23, for the words “Surguja Evam Uttar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran”, the words “Surguja Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran” shall be substituted; and | |
| | (iii) | after serial number 128, the following shall be added, namely :- | |
| | | “129. Chhattisgarh Sports Development Authority. | |
| | | 130. Madhya Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.” | |